


材质：128g双铜纸过哑油
规格：风琴折，4c印刷
备注：logo的红色为：185C红

蓝色线框为辅助线，不打印

封面



封底

Never Settle

Version: v1.0

二维码扫描内容:
厂家代码-料号

WARP CHARGE无线闪充: 可为支持WARP CHARGE无线闪充协议的手机提供最高50W的无线充电服务。该服务需搭配通过65W或65W以上PD协议认证的数据线及第三方电源适配器。 *搭配Warp 65W电源适配器最高支持45W的无线充电服务。	Charge sans fil: Mode d'emploi : Connectez le chargeur sans fil à l'adaptateur secteur* avec un câble de données. Placez l'appareil mobile prenant en charge le protocole de charge sans fil privé OnePlus au centre de la zone d'induction pour la charge sans fil. Après la charge, retirez l'appareil mobile. * Ce produit prend en charge les adaptateurs secteur WARP CHARGE, QC, PD et ceux de 5V/2A communs. Ce produit n'est pas fourni avec un adaptateur secteur.	वायरलेस चार्टिंग संचालन के नियमः वायरलेस चार्टिंग को पावर एडप्टर* से डेटा केबल के साथ कनेक्ट करो। आपरेशन चार्टिंग को लाइ इंडिकेशन एफ्युज के केंद्र में OnePlus पावर एडप्टर वायरलेस चार्टिंग पटीटोकाल को संपोर्ट करने वाला मोबाइल डिवाइस को हटाएं। * यह उत्पाद WARP CHARGE, QC, PD, और आम 5V/2A पावर एडप्टर का समर्थन करता है। यह उत्पाद पावर एडप्टर को साथ नहीं आता है।	指示灯说明 	Indicator instruction <table border="1"><thead><tr><th>Indicator color</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>N/A</td><td>No power connection or standby</td></tr><tr><td>Fast flashing white for three times</td><td>Connected to power or mobile device removal</td></tr><tr><td>White steady on</td><td>Charging or charging completed</td></tr><tr><td>Flashing red</td><td>Ongoing protection feature due to an exception</td></tr></tbody></table>	Indicator color	Status	N/A	No power connection or standby	Fast flashing white for three times	Connected to power or mobile device removal	White steady on	Charging or charging completed	Flashing red	Ongoing protection feature due to an exception	संकेतक नियम <table border="1"><thead><tr><th>संकेतक रंग</th><th>स्थिति</th></tr></thead><tbody><tr><td>लाल गली</td><td>कोई पावर कनेक्शन या मूटेंडबाय नहीं।</td></tr><tr><td>तीन बार के लाइ टोनी</td><td>पावर कनेक्शन या मोबाइल डिवाइस निकालना।</td></tr><tr><td>सफेद स्थिति चाल</td><td>चार्टिंग हो रहा है या चार्ट फिर फिरा है।</td></tr><tr><td>चमकता लाल</td><td>संटक्षण सुविधा अपवाद के कारण थ्रूट हुई।</td></tr></tbody></table>	संकेतक रंग	स्थिति	लाल गली	कोई पावर कनेक्शन या मूटेंडबाय नहीं।	तीन बार के लाइ टोनी	पावर कनेक्शन या मोबाइल डिवाइस निकालना।	सफेद स्थिति चाल	चार्टिंग हो रहा है या चार्ट फिर फिरा है।	चमकता लाल	संटक्षण सुविधा अपवाद के कारण थ्रूट हुई।
Indicator color	Status																								
N/A	No power connection or standby																								
Fast flashing white for three times	Connected to power or mobile device removal																								
White steady on	Charging or charging completed																								
Flashing red	Ongoing protection feature due to an exception																								
संकेतक रंग	स्थिति																								
लाल गली	कोई पावर कनेक्शन या मूटेंडबाय नहीं।																								
तीन बार के लाइ टोनी	पावर कनेक्शन या मोबाइल डिवाइस निकालना।																								
सफेद स्थिति चाल	चार्टिंग हो रहा है या चार्ट फिर फिरा है।																								
चमकता लाल	संटक्षण सुविधा अपवाद के कारण थ्रूट हुई।																								

Safety and Warranty

Model/型号: C302A
FCC ID: 2ABZ2-C302A
IC: 12739A-C302A

Safety Information and Warranty
安全信息&保修卡
Información de Seguridad y Garantía
সুরক্ষা জানকারী ও গার্মাণ্টি

OnePlus
Warp Charge 5
Wireless Charge

注意事项

- 请勿在高温、潮湿、多尘、强静电和强磁场的环境中放置本设备，以免发生故障。
- 请在室内平稳桌面上使用本设备，以确保良好稳定的使用效果。
- 请勿在移动设备与本设备之间放置其他物品（例如磁铁、磁带等），以免影响本设备的正常工作。

安全信息说明
在使用和操作设备之前，请阅读并理解。

- 性能，避免出现危险或非法情况。
- 充电器应安装在设备附近，且易于接近。
- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守的规定，并关闭设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您这些医疗设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条款。
- 请勿在雷暴天气使用本设备或暴露在高温或发热设备的如日光、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等，以免引起火灾或设备故障。
- 请在温度 0°C - 35°C ，湿度 $20\%-80\%$ RH 范围内使用本设备，并在温度 -20°C - $+55^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $20\%-80\%$ RH 范围内存储备，以免引起设备故障。
- 请勿将金属异物放置在无线充电器表面，以免引起设备发热。
- 需使用与设备规格相匹配的适配器连接电源，且适配器过 CCC 认证。
- 若使用 USB 端口供电，请确认 USB 线为一加原装数据线且符合 USB-IF 的相关规范。

在儿童接触不到的地方。儿童可能在无意之
配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。
请勿任儿童接触。改装、拆卸、放大、割空

- 勿请自行拆解、改装、碰撞、敲打、刺穿，勿将Warp 50无线超级充电器置于火中及水中，或暴露于超出设定温度的高低温环境。
- 勿请在电源线上放置重物或试图更改任何电线。
- 请勿拔出电源线，否则可能导致损坏并导致触电或火灾。
- 清洁设备之前，请从插座上拔下电源插头。
- 请按当地规定处理设备，不可将设备作为生活垃圾处理。请遵守本设备及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。
- 该产品不适用于汽车。在某些情况下，它可能会干扰汽车系统。

与支持
服务热线：400-888-1111

帮助可登陆: www.oneplus.com/support
518040
信息: 深圳市万普拉斯科技有限公司
深圳市福田区泰然八路泰然大厦C座18楼

明：

有害物质或元素						
铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBDE)	多溴二苯醚 (PBOE)	
组项	X	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O
X	O	O	O	O	O	O
X	O	O	O	O	O	O

<p>Precautions</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not place or use this device in high temperature, humidity, dusty conditions, or areas exposed to intense static electricity and strong magnetic fields. Do not spill water on the device's surface, or the device could be affected negatively. Place the device on an indoor, stable desktop to guarantee steady use. Do not place any metal objects between the charger and phone, such as a magnetic holder, paper clip, metal card, bus card, bank card, or passport containing a metal magnetic strip. Otherwise, the wireless charge board may not work properly or get heated, damaging any charged device or other devices. Do not bring magnetic card with magnetic strip or chip (such as bank card, ID card, traffic card, etc.) near the device, otherwise it may cause magnetic failure. If a protective case is used when the mobile device is being charged, ensure that the protective case is less than 2mm thick. If the protective case is thicker or the surface is uneven, remove it before charging the mobile device; otherwise, it could fall, or the charging may not occur. When exceptions occur during wireless charging, the device will enter the protection status, and the indicator will flash in red. In this case, remove the mobile device or disconnect it from the power supply. 	<p>After the exception is solved, place the mobile device again.</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not cover the air outlet at the bottom. Some heat and noise from it is a normal phenomenon. Do not disassemble or modify charger, as this may lead to personal injury, electric shock or fire. Do not touch the charger, cable or power socket with wet hands, as this may cause electric shock. Unplug the charger from electrical outlets and the device when not in use. Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical before installing or operating the apparatus. <p>Safety information</p> <p>Before use, please read and follow these precautions to ensure the device's performance avoids danger and unlawful actions.</p> <ul style="list-style-type: none"> The charger should be installed near the device and at an accessible place. In medical and healthcare facilities where using wireless devices is explicitly prohibited, please follow the specific regulations and turn off the device. The radio wave generated by the device may hinder the normal operations of implantable medical devices or personal medical 	<p>devices such as pacemakers, cochlear implants, and hearing-aids. If you are using any of these medical devices, please consult the relevant manufacturer about the limiting conditions for using this device. If there are no limiting conditions set out by the medical device manufacturer, keep the device at least 30cm from your medical device.</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not use the device when there is a thunderstorm. Do not expose the device to high temperature or heating devices such as sunlight, heater, microwave, oven or water heater, to avoid electric shock and device failure. To prevent device failure, the operating temperature range and humidity range for the device are from 0 °C + 35 °C, 20% to 80% RH; and the storage temperature range and humidity range for the device are from -20 °C to +55 °C, 20% to 80% RH. Do not place any metal object on the surface of the wireless charge to avoid device failure or heating. If a USB port is used for power supply, make sure that the USB cable is provided by OnePlus or complies with relevant USB-IF specifications. This device and its accessories may contain small parts. Please put the device and its accessories out of children's reach. Children may accidentally damage this device and its accessories, or swallow the small parts and got choked or other dangers. Do not disassemble, refit, drop, knock, or pierce OnePlus Warp 	<p>Charge 50 Wireless Charger. Do not place OnePlus Warp Charge 50 Wireless Charger in water or fire, or expose it to high/low temperature conditions beyond the set temperature ranges.</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not place any heavy objects on the power cable. Do not attempt to alter any cable. Do not pull out the power cable, or the cable may be damaged and cause electric shock or fire. Before cleaning the device, disconnect the plug from the socket. Dispose of the device in accordance with your local regulations. Do not dispose of the device as household waste. Comply with the local decrees concerning the disposal of the device and its accessories. Support the recycle process. This product is not intended for use in an automobile. In certain cases it may interfere with automotive electronic systems. When using the product, maintain a distance of 20 cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements. 	<p>2. Unless otherwise specified, this warranty covers components of the product as originally supplied, cover, or partially covers, software, consumable accessories, even if packaged or sold together. The limited warranty only covers functional defects caused by workmanship or build materials. For please contact OnePlus Customer Support by oneplus.com/support.</p> <p>Statement</p> <p>OnePlus is a registered trademark of OnePlus Technology Co., Ltd. Copyright: OnePlus Technology (Shenzhen) All rights reserved.</p> <p>This manual is for informational purposes only and does not constitute a commitment of any kind.</p> <p>Service and Support</p> <p>Company Information: OnePlus Technology (Shenzhen) Address: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shun Hing Building, Binhe Avenue North, Futian District, Shenzhen, GuangDong, P.R.C.</p>
---	---	---	---	---

<p>Précautions</p> <ul style="list-style-type: none"> Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil dans des conditions de température élevée, humides ou poussiéreuses ou dans des zones exposées à une électricité statique intense ou à des champs magnétiques puissants. Ne renversez pas d'eau sur la surface de l'appareil, sinon l'appareil pourrait être défectueux. Placez l'appareil sur un bureau stable à l'intérieur pour garantir une utilisation stable. Ne placez aucun objet métallique entre le chargeur et le téléphone, par exemple un support magnétique, un trombone, une carte métallique, une carte de bus, une carte bancaire ou un passeport contenant une bande magnétique métallique. Sinon, la carte de charge sans fil risque de ne pas fonctionner correctement et le chargeur peut être chauffé, ce qui peut endommager tout appareil en cours de charge ou d'autres appareils. N'apportez pas de cartes magnétiques avec des bandes magnétiques ou des puces (telles que des cartes bancaires, des cartes d'identité, des cartes de transport, etc.) à proximité de l'appareil pour éviter une défaillance magnétique. Si un étui de protection est utilisé lors de la charge de l'appareil mobile, assurez-vous que l'épaisseur de l'étui de protection est inférieure à 2 mm. Si l'étui de protection est plus épais ou si la 	<p>surface est inégale, retirez-le avant de charger l'appareil mobile; sinon, la charge peut échouer ou l'appareil mobile peut tomber.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque des anomalies se produisent pendant la charge sans fil, l'appareil passera en état de protection et le voyant clignotera en rouge. Dans ce cas, retirez l'appareil mobile ou débranchez-le de l'alimentation électrique. Une fois l'anomalie résolue, replacez l'appareil mobile. Ne couvrez pas la sortie d'air située en bas. Certaines chaleurs et bruits sont des phénomènes normaux. Ne démontez pas et ne modifiez pas le chargeur, car cela pourrait entraîner des blessures, un choc électrique ou un incendie. Ne touchez pas le chargeur, le câble ou la prise d'alimentation avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique. Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. 	<p>Consignes de sécurité</p> <p>Avant utilisation, veuillez lire et suivre ces précautions pour garantir les performances de l'appareil et éviter les dangers et les actions illégales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le chargeur doit être installé à proximité de l'appareil et à un endroit accessible. 	<ul style="list-style-type: none"> Dans les établissements médicaux et de soins de santé où l'utilisation d'appareils sans fil est explicitement interdite, veuillez suivre les réglementations spécifiques et éteindre l'appareil. Une onde radio générée par l'appareil peut entraîner le fonctionnement normal des dispositifs médicaux implantables ou des dispositifs médicaux personnels tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires et les appareils auditifs. Si vous utilisez l'un de ces appareils médicaux, veuillez consulter le fabricant concerné sur les conditions limites d'utilisation de cet appareil. S'il n'y a pas de conditions limites définies par le fabricant du dispositif médical, éloignez l'appareil au moins 30 cm de votre dispositif médical. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il y a un orage. N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou à des appareils chauffants tels que la lumière du soleil, un radiateur, un four à micro-ondes, un four ou un chauffe-eau, pour éviter les chocs électriques et les pannes de l'appareil. Pour éviter une panne de l'appareil, la plage de température de fonctionnement et la plage d'humidité de l'appareil sont de 0 °C à +35 °C, de 20 % à 80 % HR, et la plage de température de stockage et la plage d'humidité pour l'appareil sont de -20 °C à +55 °C, de 20 % à 80 % HR. Ne placez aucun objet métallique sur la surface de la charge sans fil pour éviter une panne de l'appareil ou une surchauffe. 	<ul style="list-style-type: none"> Si un port USB est utilisé pour l'alimentation électrique, assurez-vous que le câble USB est fourni par OnePlus ou est conforme aux spécifications USB-IF pertinentes. Cet appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Veuillez mettre l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Les enfants peuvent accidentellement endommager cet appareil et ses accessoires, ou avaler les petites pièces et être étouffés, ou causer d'autres dangers. Ne démontez pas, ne remontez pas, ne laissez pas tomber, ne cognez pas et ne percez pas le chargeur sans fil OnePlus Warp Charge 50. Ne mettez pas le chargeur sans fil OnePlus Warp Charge 50 dans l'eau ou dans le feu, et ne l'exposez pas à des conditions de température élevée/basse au-delà des plages de température définies. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation. N'essayez pas de modifier un câble. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, car cela risque d'endommager le câble et provoquer un choc électrique ou un incendie. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche de la prise. Mettez l'appareil au rebut conformément aux réglementations locales. Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers. Respectez les décrets locaux concernant la mise au rebut de l'appareil et de ses accessoires. Participez au processus de recyclage.
<p>• Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans certains cas, il peut interférer avec les systèmes automobiles.</p> <p>• Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de sécurité pour garantir le respect des exigences d'explosions.</p> <p>Consignes de sécurité</p> <ol style="list-style-type: none"> Les appareils OnePlus achetés sur oneplus.com canaux de vente agréés bénéficient d'une garantie. La durée de cette garantie dépend du pays ou de la région d'achat et n'est remboursable que dans le pays d'origine. Sauf spécification contraire, cette garantie couvre tous les matériaux du produit tels que fournis à l'origine et alors seulement de manière partielle, les logiciels consommables ou les accessoires même si ceux-ci sont vendus avec le produit. La garantie limite les défauts fonctionnels du produit causés par la manipulation ou l'utilisation incorrecte du produit. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche de la prise. Mettez l'appareil au rebut conformément aux réglementations locales. Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers. Respectez les décrets locaux concernant la mise au rebut de l'appareil et de ses accessoires. Participez au processus de recyclage. 				

<p>FCC Regulatory Conformance</p> <p>FCC Statement</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. <p>NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>FCC Caution</p> <p>Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.</p>		
<p>Innovation, Science and Economic Development Conformance</p> <p>ISED Statement:</p> <p>This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 		<p>Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes RSS(s) applicables aux appareils radio exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement Économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences. (2) L'appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'en compromettre le fonctionnement. <p>This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.</p> <p>This device complies with ICES-001 of Canada.</p> <p>This device complies with the RSS-216 of Canada.</p> <p>This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.</p> <p>CAN ICES-003(B) / NMB-003(B), CAN ICES-001(B) / NMB-001(B), CAN RSS-216 / CNR-216.</p> <p>Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.</p> <p>Cet appareil est conforme à la norme NMB-001 du Canada.</p> <p>Cet appareil est conforme à la norme RSS-216 du Canada.</p> <p>Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.</p>

<p>EN</p> <h3>EU Regulatory Conformance</h3> <p>CE Statement Hereby, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that the radio equipment type C302A is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.oneplus.com/support/manuals</p> <p>RoHS Compliance This product complies with directive 2011/65/EU and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.</p> <p>Correct disposal of this product This symbol (with or without a solid bar) on the device, batteries (included), and / or the packaging, indicates that the device and its electrical accessories (for example, a headset, adapter or cable) and batteries should not be disposed of as household garbage. To safely recycle your device, please use local</p>	<p>return and collection systems or contact the retailer where the device was originally purchased.</p> <p>European Frequency Bands and Power The wireless charger frequency bands 110kHz-148.5kHz. The wireless charger maximum power: Wireless Power Charging: ≤ 48.44 dBμA/m at 3m.</p> <p>This device has been tested and meets applicable limits for radio frequency (RF) exposure, Exposure value: 3.309 μT at 10 cm distance adaptor supplied by 230 V AC/50 Hz.</p>	<p>Graphic Introduction</p> <p> For indoor use only To identify electrical equipment designed primarily for indoor use.</p>	<p>CS</p> <h3>Shoda s regulačními opatřeními EU</h3> <p>Prohlášení o certifikaci CE Spoločnosť OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto deklaruje shodu rádiového zařízení typu C302A s kritérii evropské směrnice 2014/53/EU. Cely text prohlášení o shodě s podminkami EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.oneplus.com/support/manuals</p> <p>Dovozce do EU: Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, the Netherlands Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, the Netherlands</p> <p>Shoda RoHS Tento produkt splňuje podmínky použití určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zařízeních stanovené nařízením Evropské unie 2011/65/EU a jeho dodatky.</p>	<p>Správná likvidace tohoto produktu Tento symbol (s plným pruhem baterií) (jsou součástí dodávky) by zařízení a jeho elektrické přívody, adaptér nebo kabel) likvidovány jako domácí odpad. K bezpečnému zařízení prosím použijte lokální systém elektroniky, nebo kontaktujte prodejce původně zakoupeno.</p> <p>Europejská frekvenční pásmá a výkon Frekvenční pásmá bezdrátové nabíječky: Maximální výkon bezdrátové nabíječky bezdrátové nabíjení: ≤ 48.44 dBμA/m</p> <p>Výklad grafických označení  Pouze pro použití v interiéru Označuje elektrická zařízení navržená</p>
---	--	---	--	---

<p>FI</p> <p>EU-säädösten noudattaminen</p> <p>CE-lausunto</p> <p>OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ilmoittaa täten, että C302A-tyyppinen radiolaitte noudattaa direktiivä 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-soitteenessa: https://www.oneplus.com/support/manuals</p> <p>Maahanottoja EU:ssa:</p> <p>Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, The Netherlands Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, The Netherlands</p> <p>RoHS-säädöstenmukaisuus</p> <p>Tämä tuote noudattaa direktiivä 2011/65/EU ja sen muutoksia koskien tiettyjen vaarallisten ainaineiden käyttörajoituksia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.</p>	<p>Tuotteen asianmukainen hävittäminen</p>  <p>Tämä symboli (kiinteällä viivalla tai ilman) laitteessa, aukkuissa (ohessa) ja/tai pakkauksessa ilmoittaa, että laite ja sen sähköisissä lisävarusteissa (esim. kuulokkeet, verkkolaite tai kaapel) ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteeen. Kierrätä laiteesi turvalisesti käytäntöä mukaillisina kieräysjärjestelmäin tai pyytämällä uusvaa jälleenmyyjältä, jolta tuote hankittiin.</p> <p>Eurooppalaiset taajuuksaluet ja teho</p> <p>Langattoman laturin taajuusaluet 110 - 148.5 kHz. Langattoman laturin maksimiteho: Langaton lataus käynnissä: < 48.44 dBµA/m etäisyyddellä 3m.</p> <p>Kuvien selitys</p>  <p>Vain sisäkäytöön Tarkoittaa, että sähkölaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäytöön.</p>	<p>FR</p> <p>Conformité réglementaire UE</p> <p>Déclaration de conformité CE</p> <p>Par la présente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que ce C302A de type équipement radio est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Vous trouverez le texte complet de la déclaration de conformité de l'Union Européenne à l'adresse Internet suivante: https://www.oneplus.com/support/manuals</p> <p>Importateur UE:</p> <p>Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, Pays-Bas Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, les Pays-Bas</p> <p>Conformité aux normes RoHS</p> <p>Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE et à ses amendements concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.</p>	<p>Mise au rebut de ce produit</p>  <p>Ce symbole (avec ou sans barre pleine) sur l'appareil, et/ou l'emballage, indique que l'appareil et ses accessoires électriques (par exemple, un casque, un adaptateur ou un connecteur) et les piles ne doivent pas être jetés avec vos autres déchets domestiques. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, veuillez utiliser le système de retour et de collecte local ou contacter le détaillant ayant vendu l'appareil à l'origine.</p> <p>Bandes de fréquences et puissances de transmission européenne</p> <p>Les bandes de fréquence du chargeur sans fil 110kHz-148.5kHz. La puissance maximale du chargeur sans fil: Charge électrique sans fil: < 48.44 dBµA/m à 3m.</p> <p>Présentation des icônes</p>  <p>Pour une utilisation à l'intérieur uniquement Pour identifier les équipements électriques conçus principalement pour une utilisation à l'intérieur.</p>	<p>DE</p> <p>Konformität mit den EU-Vorschriften</p> <p>CE-Erklärung</p> <p>Hiermit erklärt OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. die Funkanlage des Typs C302A mit der EU-Richtlinie 2014/53/EU in Übereinstimmung.</p> <p>Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.oneplus.com/support/manuals</p> <p>EU-Importeur:</p> <p>Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam</p> <p>RoHS-Konformität:</p> <p>Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU und den Änderungen zur Beschränkung der gefährlicher Stoffe in elektrischen und</p>
--	--	--	--	--

<p>LV</p> <p>Atbilstība ES normatīvo aktu prasībām</p> <p>CE atbilstības deklarācija Ar šo uzņēmums OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. apliecinā, ka radio aprīkojums C302A atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām.</p> <p>Pilnais ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta vietnē: https://www.oneplus.com/support/manuals</p> <p>Importētājs ES: Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, the Netherlands Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, the Netherlands</p> <p>Atbilstība RoHS Šis produkts atbilst Direktīvi 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, kā arī tās grozījumiem.</p>	<p>Parēize šī produkta likvidēšana</p>  Šis simbols (ar nepārtrauktu joslu vai bez tās) uz ierīces, akumulatoriem (iekļauti) un/vai iepakojumu norāda, ka ierīce un tās elektriskos piederumus (piemēram, austījas, adapteri vai kabeli) un akumulatorus nedrīkst likvidēt kā sadzīves atkritumus. Lai droši pārstrādātu ierīci, lūdu, izmantojiet vietējās nodrošinās un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirdzotāju, pie kura ierīce tika sākotnēji iegādāta. <p>Eiropas frekvencu joslas un jauda Bezvadu lādētāja frekvencu joslas 110–148.5 kHz. Bezvadu lādētāja maksimālā jauda: bezvadu jaudas uzlāde: ≤ 48.44 dBµA/m pie 3 m.</p> <p>Grafisko elementu skaidrojums  Tikai lietošanai iekštelpās Lai identificētu elektrisko aprīkojumu, kas paredzēts lietošanai galvenokārt iekštelpās.</p>	<p>LT</p> <p>ES normatinių aktų atitinkimas</p> <p>CE pareiškimas Šiuo dokumentu „OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.“ pareiškia, kad C302A tipo radio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitinkties deklaracijos teksta galima rasti šiuo interneto adresu: https://www.oneplus.com/support/manuals</p> <p>ES importuotojas: „Eastern Sun Trading B.V.“ Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, Nyderlandai „Reflection Investment B.V.“ Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, Nyderlandai</p> <p>RoHS atitiktis Šis gaminys atitinka direktīvą 2011/65/ES ir jos pakeitimus dėl tam tikru pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.</p>	<p>Tinkamas šio prietaiso šalinimas</p>  Šis simbolis (su ištisinės juosta arba be jos) ant prietaiso, bateriju (pridedama) ir arba pakuočių rodo, kad prietaiso ir jo elektinėjį priedų (pavyzdžiu, laisvų rankų įrangos, adapterio ar kabelio) ir baterijų negalima išmesti kaip buitinį atlieką. Jei norite saugiai perdirbioti prietaisą, naudokite vienches grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekitė su pardavėju, iš kurio prietaisas buvo išsigytas. <p>Dėžinio juostos Europoje ir galia Belaidžio įkroviklio dažnų juostos yra 110–148.5 kHz. Belaidžio įkroviklio maksimali galia: Belaidžio maitinimo įkrovimas: ≤ 48.44 dBµA/m esant 3 m.</p> <p>Grafinis pateikimas  Naudoti tik patalpoje Siekiant identifikuoti elektrinę įrangą, skirtą pirmiausia naudoti patalpose.</p>	<p>PL</p> <p>Zgodność z prawem UE</p> <p>Oświadczenie CE Niniejszym OnePlus Technology sprzęt radiowy typu C302A jest zgodny z Pełny tekst deklaracji zgodności i internetowej: https://www.oneplus.com/</p> <p>Importer w UE: Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam</p> <p>Zgodność z dyrektywą RoHS Produkt jest zgodny z dyrektywą wykorzystywania niebezpiecznych i elektronicznym oraz załącznika</p>
---	---	---	---	---

<p>ES</p> <h3>Cumplimiento con la normativa de la UE</h3> <p>Declaración CE Por la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico C302A es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.oneplus.com/support/manuals</p> <p>Importador en la UE: Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, Países Bajos Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Ámsterdam, Países Bajos</p> <p>Cumplimiento con RoHS Este producto cumple con la directiva 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos y sus correspondientes enmiendas.</p>	<p>Eliminación correcta de este producto</p>  <p>Este símbolo (con o sin barra sólida) en el dispositivo, en las baterías (si están incluidas) y/o en el embalaje, indica que el dispositivo y sus accesorios eléctricos (por ejemplo, los auriculares, el adaptador o el cable) y las baterías no deben desecharse como residuos comunes. Para reciclar de forma segura el dispositivo, haz uso de los sistemas de devolución y recogida o ponte en contacto con el distribuidor al que se lo hayas comprado.</p> <p>Bandas de frecuencia europeas y potencia La frecuencia del cargador inalámbrico es de entre 110 kHz y 148.5 kHz. La potencia máxima del cargador inalámbrico es: Carga de batería inalámbrica: ≤ 48.44 dBµA/m a 3 m.</p> <p>Explicación de los símbolos</p>  <p>Diseñado solo para usos en interiores Identifica que el equipo eléctrico ha sido diseñado principalmente para su uso en interiores.</p>	<p>SE</p> <h3>EU:s Regelverkskonform</h3> <p>CE-meddelande Härmed förklarar OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. att radioutrustningen typ C302A överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämelse finns på följande internettadress: https://www.oneplus.com/support/manuals</p> <p>EU-importör: Eastern Sun Trading B.V. Stadionstraat 11 C10, 4815NC Breda, the Netherlands Reflection Investment B.V. Keizersgracht 482, 1017EG, Amsterdam, the Netherlands</p> <p>RoHS-överensstämelse Denna produkt uppfyller direktiv 2011/65/EU och dess ändringar, om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.</p>	<p>Korrekt avfallshantering av denna produkt</p>  <p>Denna symbol (med eller utan en solida stålpel) på enheten, batterier (ingår) och / eller förpackningen, indikerar att enheten och dess elektriska tillbehör (till exempel headset, adapter eller kabel) och batterier inte ska kastas som hushållsavfall. För att på ett säkert sätt återvinna din enhet, lämna den till en återvinningsanläggning eller kontakta återförsäljaren där du köpte din enhet.</p> <p>Europeiska frekvensband och stömförsörjning Den trådlösa laddarens frekvensband 110kHz-148.5kHz. Den trådlösa laddarens maximala effekt: Trådlös laddning: ≤ 48.44 dBµA/m vid 3 m.</p> <p>Grafisk introduktion</p>  <p>Endast för inomhusbruk För att identifiera elektrisk utrustning främst avsedd för inomhusbruk.</p>	<p>India Regulatory Conformance</p> <p>Recycling Initiative (INDIA) At OnePlus/ Mobitech we understand end at selling you our products. Or working in the area of safe disposal: mobiles, tablets and other electronic constituents. Under the Guidelines Forest and Climate Change, Governance (Management) Rule, 2016 and Am OnePlus/ Mobitech will seek share from customers in reducing the e-products. OnePlus/ Mobitech will comply with E-waste management.</p> <p>Declaration of Conformity hereby, Limited ('OnePlus/ Mobitech') stands committed to meeting with the extension authorization no. B-29016/B24/ Division dated 18.07.2018 issued by For more information on same log on to https://www.oneplus.com or write an email to or contact our Toll Free No. 1800 200 1000.</p>
--	--	---	---	--

损坏本设备及其 如 Warp 50 无线超 级闪充充电器置于 温环境。 。 触电或火灾。 垃圾处理。请遵 回收行动。 会干扰汽车电子 退换货服务，具体 请保持产品及附件 三包凭证。	<h3>服务与支持</h3> <p>售后服务热线：400-888-1111 更多帮助可登陆：www.oneplus.com/support 邮编：518040 公司信息：深圳市万普拉斯科技有限公司 地址：深圳市福田区泰然八路泰然大厦C座18楼</p>
---	--

环保说明:

部件名称	产品中有害物质名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组	X	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

表格依据RoHS 1/2006 的规定编制
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011 规定的限量要求之下
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011 规定的限量要求, 且业内未成熟的应用方案, 此产品符合欧盟RoHS 指令环保要求。
10 在图标内的数字表示产品在本信息指南规定的正常使用条件下的环保使用期限为10年。某些内部或外部组件的环保使用期限可能与产品环保使用期限不同。
10 产品上的使用期限标志优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标志。因型号不同产品可能不包括除主机以外的其他部件, 请以产品实际销售配置为准。

